



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1946 (श10)

(सं0 पटना 161) पटना, शुक्रवार, 28 फरवरी 2025

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी 2025

सं० FW-1723/4/2025-SEC_9/934—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमण्डल में स्थायी रूप से एक नया अवर निबंधन कार्यालय का सृजन तथा उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक-एक पद का सृजन करते हैं।

2. उक्त सृजित नये अवर निबंधन कार्यालय, पालीगंज का क्षेत्राधिकार पालीगंज एवं दुल्हिन बाजार अंचल तक सीमित रहेगा।

3. उक्त नये निबंधन कार्यालय के सृजन के फलस्वरूप अवर निबंधन कार्यालय, बिक्रम का क्षेत्राधिकार पुनर्गठित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
विनोद सिंह गुंजियाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 161-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>